



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 562]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 5, 1972/श्रावण 14, 1894

No. 562]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 5, 1972/SRAVANA 14, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th August 1972

S.O. 519(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (d) and (f) of sub-section (2) of that section shall, in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Mysore in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st January 1973

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- (i) Ragi Hay.
- (ii) Paddy Straw.
- (iii) Gram Husk.
- (iv) Kadabi.
- (v) Wheat Bran.
- (vi) Hay.
- (vii) Husk.

[No. 24-2/72-L.D.III.]

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिमूचनाएं

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 1972

का० आ० 519(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम अधिनियम की धारा 3 द्वारा, उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (घ) और (च) के अधीन आदेश देने के लिए, उस को प्रदत्त शक्तियों, इसके उपावृद्ध अनुबन्धों में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु-चारे के सम्बन्ध में, मैसूर सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रायोजन्य होगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 जनवरी, 1973 तक, जिस में यह सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगी।

अनुबन्ध

पशु चारे की किस्में

- (i) रागी सूखी घास,
- (ii) चावल डठल,
- (iii) चने का भूसा,
- (iv) कड़री,
- (v) गेहूँ-चोकर,
- (vi) सूखी घास,
- (vii) भूसा।

[सं० 24-2-72-एन डी III]

S.O. 520(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby directs that the powers conferred on it by section 3 of the said Act to make orders under clauses (c), (d) and (f) of sub-section (2) of that section shall in relation to the cattle fodder of any of the varieties specified in the Schedule hereto annexed, be exercisable also by the Government of the State of Rajasthan in that State.

This order shall come into force on the date of its publication in the Gazette of India and shall remain in force upto and inclusive of the 31st January, 1973.

THE SCHEDULE

Varieties of Cattle Fodder

- (i) Hay and Grass;
- (ii) Wheat Bhusa;
- (iii) Gobar and its products;
- (iv) Kharb or Karbi or Jowar, Maize and Bajra;
- (v) Moth, Moth chara and Moth churl;
- (vi) Gram Chhilka;
- (vii) Gram Churi;
- (viii) Oil Cakes of all types;
- (ix) Wheat Barley Chapat;
- (x) Barley Husk;
- (xi) Rice Husk;
- (xii) Moong, Moong chara and Moong Churl.

[No. 24-3/72-L.D.III.]
V. P. GULATI, Dy. Secy.

का० आ० 520(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ग), (घ) और (च) के अधीन आदेश देने के लिए, उस को प्रदत्त शक्तियां, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी किस्म के पशु चारे के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार द्वारा भी उस राज्य में प्रोक्तव्य होंगी।

यह आदेश भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा और 31 जनवरी, 1973 तक जिस में यह सम्मिलित है, प्रवृत्त रहेगा।

अनुसूची

पशु चारे की किस्में

- (1) सूखी और घास,
- (2) गेहूं का खावला, भूसा,
- (3) गवार और उसके उत्पाद,
- (4) कर्ब या ज्वार, मक्की और बाजरे की कर्बी,
- (5) मोठ, मोठ चारा और मोठ चूरी,
- (6) चना छिल्का,
- (7) चना चूरी,
- (8) सभी प्रकार की खली,
- (9) गेहूं व जौ का चोकर,
- (10) जौ का भूसा,
- (11) चावल का भूसा,
- (12) मूंग, मूंगचारी और मूंग चूरी।

[सं० 24-3/72-एल०डी० III]

वी० पी० गुनाटी, उप सचिव।

